

Date: 01st June, 2022

1) The Manager, Listing Department, National Stock Exchange of India Limited, Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai-400051	2) The Manager, Corporate Relationship Department, BSE Limited, 1st Floor, New Trading Wing, P. J. Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai-400001
Scrip ID – ARCHIES	Scrip Code – 532212

Sub: Submission of Newspaper Advertisements published for Audited Financial Results for the quarter and year ended 31.03.2022

Dear Sir/Madam,



Please find enclosed herewith the Newspaper Advertisements published for the Audited Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2022 in the newspapers, Financial Express (English Edition) and Jansatta (Hindi Edition) on 01st June, 2022.

You are requested to take the same on records.

Thanking you.

Yours faithfully,

For Archies Limited



Hitesh Kumar
(Company Secretary)

Encl: A/a

ARCHIES LIMITED

C-113, NARAINA INDUSTRIAL AREA, PHASE-1, NEW DELHI-110028 (INDIA), CIN : L36999HR1990PLC041175
TEL.: 91-11-41410000, 41412222, Fax : 91-11-41410060, Email : archies@archiesonline.com, Website : www.archiesonline.com
REGISTERED OFFICE : PLOT NO. 191-F, SECTOR-4, I.M.T. MANESAR, GURUGRAM -122050, HARYANA (INDIA)

www.archiesinvestors.in

2,129
3,157
8.24
8.24

with the Stock Requirements) on the Stock Exchange Company's

mic relating to assets / liabilities. in the global approval of the Company's coverability of operations and liquidity and financial situation. derived from the

a dividend of ₹ 2/- per share on 31 March 2022.

of Directors

(alone)

₹ in lakhs
Year ending 31/3/2021
2297.77
69.95
69.95
57.03
57.03

the Audit Committee and Board of Directors at their meeting held on 30th May, 2022. The full format of the Audited Financial Results is available on the website of the Stock Exchange www.bseindia.com and also on the website of the Company on www.rict.in.

By order of the Board
For Royal India Corporation Limited
Sd/-
Mr. Nalin Gujral
(Managing Director)
DIN: 08184606

Place: Mumbai
Date: 01.06.2022

Notes:
1) The above results were approved by the Audit Committee at its meeting held on May 30, 2022. The information is in accordance with the Regulations, 2015 of the Stock Exchange website www.imperfected

Place: Kolkata
Date: 30th May, 2022



The most special way to say you care

ARCHIES LIMITED

Regd. Office: Plot No. 191-F, Sector-4, I.M.T. Manesar, Gurugram, Haryana-122050
CIN: L36999HR1990PLC041175 Web: www.archiesonline.com & www.archiesinvestors.in
Email: archies@archiesonline.com, Tel: +91 124 4966666, Fax: +91 124 4966650

Extract of Audited financial results for the Quarter and Year ended 31 March 2022 (₹ in Lakhs)

Particulars	Quarter Ended			Year Ended	
	31.03.2022 Audited	31.12.2021 Unaudited	31.03.2021 Audited	31.03.2022 Audited	31.03.2021 Audited
1 Total income from Operations	2327.52	2572.63	2113.60	7718.57	5529.33
2 Net Profit / (Loss) for the period before Tax (before Exceptional and / or Extraordinary items)	(66.79)	(4.22)	(167.03)	(405.84)	(402.41)
3 Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(66.79)	(4.22)	(167.03)	(405.84)	(402.41)
4 Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(41.56)	(3.32)	(110.98)	(262.83)	(237.65)
5 Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	(52.64)	(6.47)	(97.18)	(280.20)	(278.39)
6 Paid up Equity Share Capital (Face value of ₹ 2/- each)	675.62	675.62	675.62	675.62	675.62
7 Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year				8,517.23	8,797.44
8 Earning Per Equity Share (of ₹ 2/- each)					
(a) Basic (₹)	(0.12)	(0.01)	(0.33)	(0.78)	(0.70)
(b) Diluted (₹)	(0.12)	(0.01)	(0.33)	(0.78)	(0.70)

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly/ Year ended Audited Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/ Year ended Audited Financial Results are available on the Stock Exchange websites viz www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the Company's website www.archiesinvestors.com

For and on behalf of the Board
Sd/-
Anil Moolchandani
(Chairman and Managing Director)
DIN- 00022693

Place: New Delhi
Date: 30 May 2022

VIVO BIO TECH LIMITED

Your Drug Discovery Partner

CIN: L65993TG1987PLC007163

Registered Office: Survey # 349/4, Pregnapur Village, Gajwel, Siddipet District, Hyderabad, Telangana - 502311
Email: investors@vivobio.com; Website: www.vivobio.com

EXTRACT OF AUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS OF VIVO BIO TECH LIMITED FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31 MARCH, 2022 (₹ in Lakhs except per equity share data)

Sl. No.	Particulars	QTR ENDED 31.03.2022 Refer Note#2	QTR ENDED 31.03.2021 Refer Note#2	YEAR ENDED 31.03.2022 Audited	YEAR ENDED 31.03.2021 Audited
---------	-------------	--------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

KIRLOSKAR INDUSTRIES
A Kirloskar Group Company
Registered Office: 13, Khaddi, Pune - 411 004
CIN: L27101PN1991PLA

In respect of transfer of shares, the Notice is published in the Official Gazette of India and read with the Companies Act, 2013 read with the Companies (Accounts) Regulations, 2014. The Rules, Inter-alia, require that a dividend has not been declared. Investor Education and Protection Fund (IEPF) is notified from the date of encashment of their dividend. Pursuant to aforesaid provisions, the concerned Members are requested to pursue to the Registrar and Share Transfer Agents to claim their unclaimed dividend. Notice is given to the Registrar and Share Transfer Agents along with this notice so that the equity shares may be transferred to the IEPF. It may kindly be noted that the dividend will be transferred to the IEPF without any claim on or before 31 August 2022. No claim shall lie against the Company for equity shares transferred to the IEPF. Members are requested to transfer their shares back from the IEPF. For any information, please contact at below.

Contact Details of Kirloskar Industries Limited
Link Intime India Akshay Complex, Second Floor, Near Off Dhule Patil Road, Pune
Telephone: +91 (20) 26122222
Email: pune@linkintime.com

